



Hello |

YOGESH

KUMAR !

BASIC/PERSONAL DETAILS FORM

Details of Service for Which Applying	
Name of Service	Application for Renewal of Registered Construction Worker
Issuing authorities of certificate	Authority
No. of processing days of service	15 Days

Basic/Personal Details as per Registration Profile		
1	Aadhaar Card *	*****1168
2	Name of Applicant *	
3	Gender *	Male
4	Name of Father *	
5	Date of Birth *	
6	Nationality *	Indian
7	Present Address *	A-503 MAHAVIR ENCLAVE PART-2 14 MAHAVIR ENCLAVE BINDAPUR Delhi
8	Permanent Address *	

9	Sub Division as per Entered Locality	South-West, (District: South-West)
10	Mobile No. *	
11	Name of Mother *	
12	Name of Spouse	
13	14 digit computerized Registration No. *	i

Continue

Edit Details

Cancel

FORM FOR ENTRY OF SERVICE RELATED DETAILS

BASIC/PERSONAL DETAILS	
Aadhaar Card	**
Registration ID	
Name of Applicant	
Gender	
Date of Birth	
Name of Father	
Mother Name	
Spouse Name	
Mobile No.	
Present Address	
Permanent Address	
Applied For	Application for Renewal of Registered Construction Worker
Subdivision/District of Application	

AUTO FILLED
&
DISPLAYED

Detail of old Employment Card/पुराने रोजगार कार्ड का विवरण	
1	Existing/Old Registration No/संख्या/पुस्तक संख्या *
2	Date of Initial Registration (DD/MM/YYYY)/प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन की तिथि (DD/MM/YYYY) *
3	Date of Last Renewal (DD/MM/YYYY)/अंतिम रजिस्ट्रेशन की तिथि (DD/MM/YYYY) *
4	Registration Valid Upto (DD/MM/YYYY)/रजिस्ट्रेशन वैध तक (DD/MM/YYYY) *

ENTRY FORM FOR DETAILS RELATED TO APPLICATION FOR REGISTRATION AS CONSTRUCTION WORKER (RULE 4)/निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण से संबंधित विवरण के लिए प्रवेश पत्र (नियम 266 (4))
(Details of work/work place and Employer/Contractor along with Employment detail for not 90 days)/(90 दिनों के लिए रोजगार के साथ कार्य / कार्य स्थल और निपोंन / ठेकेदार के विवरण)

1	Nature of Work category of the applicant/आवेदक की कार्य श्रेणी की प्रकृति *	
2	Locality of Workplace where Construction Worker was lastly Employed/कार्यस्थल का स्थान *	
3	Address of Workplace where Construction Worker was lastly Employed/कार्यस्थल का पता जहां निर्माण श्रमिक अंतिम रूप से कार्यरत था *	
4	Name of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceeding 12 months)/निपोंन / ठेकेदार का नाम जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में) *	
5	Total number of days worked as construction worker with last Employer/Contractor (in the preceeding 12 months)/अंतिम निपोंन / ठेकेदार के साथ निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले दिनों की कुल संख्या (पूर्ववर्ती 12 महीनों में) *	Days
6	Address of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceeding 12 months)/निपोंन/ठेकेदार का पता जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में):	
7	Email id of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceeding 12 months)/निपोंन / ठेकेदार का ईमेल जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में):	
8	Mobile No of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceeding 12 months)/निपोंन / ठेकेदार का मोबाइल नंबर जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में) *	

9	Nature of the Workplace where Construction Worker was lastly working/कार्यस्थल की प्रकृति जहाँ निर्माण श्रमिक अंतिम रूप में काम कर रहा था *:	--Select--
10	Whether Bank Account Same as Previous Registered Account/क्या बैंक खाता पूर्व पंजीकृत खाते के समान है *:	Yes

Home
Service :
F

© Disclaimer: Designed, developed and hosted by National Informatics Centre (NIC). Contents owned and maintained by Department of Revenue, Govt. of NCT of Delhi.
NIC is not responsible for any in-accuracy in the data of this site.
Website should be viewed in 1024 by 768 screen resolution in IE 8+, Firefox 3+ and Chrome 4+

Detail of Registered Union working in Construction Sector where the applicant is a member/निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे पंजीकृत संघ का विवरण जहाँ आवेदक एक सदस्य है		
1	Whether applicant is Registered Member of any Registered Union working in Construction Sector/क्या आवेदक निर्माण क्षेत्र में काम करते वाले किसी भी पंजीकृत संघ का पंजीकृत सदस्य है *:	Yes
1.a	Name of Registered Union working in Construction Sector where the applicant is registered/निर्माण क्षेत्र में काम करते वाले पंजीकृत संघ का नाम जहाँ आवेदक पंजीकृत है *:	एन सी ई सी कंस्ट्रक्शन मिस्त्रोव
2	ESI No/ESI नंबर:	
3	PF No/PF नंबर:	
Detail of Membership with other State/UT's BOCWW Board/अन्य राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के BOCWW बोर्ड के साथ सदस्यता का विवरण		
1	Whether applicant is a member of any other State/UT's building construction Worker's welfare Board/क्या आवेदक अन्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का सदस्य है *:	No
NOTE: - Fields marked with * (asterisk) are mandatory. - The applicant should check the details from thier leigibility prior to entry for processing of further application. - The Modification in Service Specific Details can be performed at Final Preview of the Application Prior to Final Submit. Continue to Next		



Hello YOGESH KUMAR! | Log

off

FORM FOR UPLOADING OF THE SUPPORTING DOCUMENTS

BASIC/PERSONAL DETAILS

Aadhaar Card	
Registration ID	
Name of Applicant	
Gender	
Date of Birth	
Name of Father	
Mother Name	
Spouse Name	
Mobile No.	
Present Address	
Permanent Address	
Applied For	Application for Renewal of Registered Construction Worker
Subdivision/District of Application	South Delhi

NOTE: For any kind of modification in above basic/personal details, kindly delete it and re-apply the service.

AUTO FILLED
&
DISPLAYED

List of Supporting Documents for Self					
S.No.	Category of Document	Type of Document	Message / Information	Whether Details of data recieved from concerned department	Upload Enclosure
1	Proof of Present Address *	Aadhaar Card		DDV	View Modify
2	Bank Account Proof *	Bank Passbook with Ph	12345	WNA	View Modify
3	Employment Certificate issued by Employer (including Contractor)/Union of Construction Sector/ALC/Self Declaration of Employment Certificate *	Certificate from Registe		WNA	View Modify
Description: *WNA - Web Service Not Implemented *WNR - Web Service Not Responding *DDV - Document Found on Server *DNV - Document Not Found on Server *DVP - Document Verification Pending on Server					

NOTE:

- Fields marked with * (asterisk) are mandatory.
- The applicant should check the scanned document from their eligibility prior to upload for processing of further application.
- The Modification in Service Specific Details and Supporting Documents can be performed at Final Preview of the Application Prior to Final Submit.

Continue to Next

© Disclaimer: Designed, developed and hosted by National Informatics Centre (NIC). Contents owned and maintained by Department of Revenue, Govt. of NCT of Delhi. NIC is not responsible for any in-accuracy in the data of this site.

Website should be viewed in 1024 by 768 screen resolution in IE 8+, Firefox 3+ and Chrome 4+



Hello YOGESH KUMAR ! | Log off

VERIFY APPLICATION DETAILS BEFORE FINAL SUBMIT/PAYMENT

BASIC/PERSONAL DETAILS	
Aadhaar Card	
Registration ID	
Name of Applicant	
Gender	
Date of Birth	
Name of Father	
Mother Name	
Spouse Name	
Mobile No.	
Present Address	
Permanent Address	
Applied For	
Subdivision/District of Application	

NOTE: For any kind of modification in above basic/personal details, kindly delete it and re-apply the service.

APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION AS CONSTRUCTION WORKER/निर्यात कार्य के रूप में पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन		Edit
Detail of old Employment Card/पुराने रोजगार कार्ड का विवरण		
1	Old Registration No/पुराना पंजीकरण नंबर	
2	Date of initial Registration/प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख	
3	Last Renewal Date/अंतिम नवीनीकरण तिथि	
4	Registration Valid Upto/पंजीकरण मान्य तक	
Details of work/work place and Employer/Contractor along with Employment detail for not 90 days/90 दिनों के लिए रोजगार के विवरण के साथ कार्य / कार्य स्थल और नियोजक / ठेकेदार के विवरण		
5	Nature of Work category of the applicant/आवेदक की कार्य श्रेणी की प्रकृति	
6	Locality of Workplace where construction worker was working/कार्यस्थल का स्थान	
7	Address of Workplace where construction worker was working/कार्यस्थल का पता जहां निर्माण श्रमिक काम कर रहा था	
8	Name of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceding 12 months)/नियोक्ता/ठेकेदार का नाम, जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में)	
9	Total number of days worked as construction worker with last Employer/Contractor (in the preceding 12 months)/अंतिम नियोक्ता / ठेकेदार के साथ निर्माण श्रमिक के रूप में काम करते वाले दिनों की कुल संख्या (पूर्ववर्ती 12 महीनों में)	
10	Address of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceding 12 months)/नियोक्ता / ठेकेदार का पता जिसके साथ अंतिम रूप से कार्यरत है (पूर्ववर्ती 12 में महीने)	
11	Mobile No. of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceding 12 months)/नियोक्ता / ठेकेदार का मोबाइल नंबर जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में)	
12	Nature of Workplace where Construction Worker was working/कार्यस्थल की प्रकृति जहां निर्माण श्रमिक काम कर रहा था	
13	Whether Bank Account Same as Previous Registered Account no./क्या बैंक खाता पिछले पंजीकृत खाते के समान है	
Detail of Registered Union working in Construction Sector where the applicant is a member/निर्यात क्षेत्र में काम कर रहे पंजीकृत संघ का विवरण जहां आवेदक एक सदस्य है		

14	Whether applicant is Registered Member of any Registered Union working in Construction Sector/क्या आवेदक निर्माण क्षेत्र में काम करते वाले किसी भी पंजीकृत संघ का पंजीकृत सदस्य है	
14.a	Name of Registered Union working in Construction Sector where the applicant is registered/निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले पंजीकृत संघ का नाम जहां आवेदक पंजीकृत है	

Home
Service :
P

© Disclaimer: Designed, developed and hosted by National Informatics Centre (NIC). Contents owned and maintained by Department of Revenue, Govt. of NCT of Delhi.
NIC is not responsible for any in-accuracy in the data of this site.
Website should be viewed in 1024 by 768 screen resolution in IE 8+, Firefox 3+ and Chrome 4+

AUTO FILLED
&
DISPLAYED

15	Email Id of Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceeding 12 months)/नियोक्ता / ठेकेदार का ईमेल जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में)	
Detail of Membership with other State/UT's BOCWW Board/अन्य राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के BOCWW बोर्ड के साथ सदस्यता का विवरण		
16	Whether applicant is a member of any other State/UT's building construction Worker's welfare Board/क्या आवेदक अन्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के पबल निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का सदस्य है	No

List of Supporting Documents for Self					Edit
S.No.	Category of Document	Type of Document	Message / Information	Whether Details of data recieved from concernerd department	View Enclosure
1	Proof of Present Address *	Aadhaar Card			View
2	Bank Account Proof *	Bank Passbook with Photographs			View
3	Employment Certificate issued by Employer (including Contractor)/Union of Construction Sector/ALC/Self Declaration of Employment Certificate *	Certificate from Registered Trade			View
Description:	*WNA - Web Service Not Implemented *WNR - Web Service Not Responding *DDV - Document Found on Server *DNV - Document Not Found on Server *DVP - Document Verification Pending on Server				



Hello

SANDHYA

KARMAKAR !

| [Log off](#)[Home](#)[Apply Online](#) ▾[Service Specific](#) ▾[Payment](#) ▾[Print](#) ▾[Custom](#) ▾[Reports](#) ▾[Help](#) ▾[About](#) ▾[Profile](#) ▾**FORM FOR FINAL SUBMIT**

Application ID	
Applicant Name	
Mobile No	
Email Id	
Service Name	Application for Registration as Construction Worker (Rule 266(4)) / Voluntary Data Updation / Renewal of Existing Manual Registrations
OTP	

[Submit](#)

18

[Resent OTP](#)

This page will expire in 9:53 minutes.
Do not close your browser or press the back or refresh button.

© **Disclaimer:** Designed, developed and hosted by National Informatics Centre (NIC). Contents owned and maintained by Department of Revenue, Govt. of NCT of Delhi.
NIC is not responsible for any inaccuracy in the data of this site.
Website should be viewed in 1024 by 768 screen resolution in IE 8+, Firefox 3+ and Chrome 4+

Step-8 Construction worker will appear at CSC counter of concerned District along with Acknowledgment and original documents.

Step-9 Office staff will verify all details, original documents and will collect due fee in cash.

Step-10 After verifying all details, original be sent for approval by verifier.

Step-11 After approval by verifier. Registering Authority, application will be signed digitally.

Step-12 After signature, Labour Cards will be handed over to the Construction workers or can be downloaded anywhere.



Thanks